Registered Office: C-6, Road No.22, M.I.D.C., Andheri (East), Mumbai – 400 093 Website: www.vipclothing.in Email ID: <u>investor.relations@viporg.com</u> Tel: 91-2825 7624, 2825 7627 Fax: 91-22-2837 1023

CIN: L18101MH1991PLC059804

July 1, 2021

To,

The Listing Department, The Listing Department

BSE Limited

National Stock Exchange of India Limited

First and Plant Plant No. C/1. C Plants

Phiroze Jeejeebhoy Towers, Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block,

Dalal Street, Bandra-Kurla Complex

Mumbai - 400 001. Bandra (East), Mumbai-400 051.

Scrip Code: 532613 Trading Symbol: VIPCLOTHNG

Dear Sir/Madam,

Sub: Compliance pursuant to Regulation 47 SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of extract of audited financial results for the quarter and financial year ended March 31, 2021 published in the following newspaper dated July 1, 2021;

- 1) Business Standard (English and Hind) and
- 2) Sakal (Marathi)

This is for your information and record.

Thanking you

Yours faithfully, For **VIP Clothing Limited**

Archana Mungunti

Company Secretary Membership no.: A-31071

Encl.: As above.

PUBLIC NOTICE

Cedificials No. Districtive No. 2017 (Cedificials No. Districtive No. 2017) (Cedificials No. Districtive No. 2017) (Cedificials No. Districtive No. 2017) (Cedificials No. 2017) (Cedificials) (Cedifi

CMS FINVEST LIMITED Regd Office : 10, Princep Street, 2nd Floor, Kolikata - 700072 Einfo@msinfotech.com, W. www.cmsinfotech.com Phone : 91-33-4002 2880, Fax: 91-33-2237 9053 CINL:67120WB1991PLC052782 EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND VEAR ENDED 31ST MARCH, 2021.

				(Rs. in Lacs)
SL	Particulars	Quarter Ended 31.03.2021 (Audited)	Year Ended 31.03.2021 (Audited)	Year Ended 31.03.2020 (Audited)
1	Total Income from Operations	35.17	40.09	21.43
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	28.69	28.51	12.66
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	28.69	28.51	12.66
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	26.84	26.66	9.37
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	38.68	50.75	(24.90)
6	Equity Share Capital	1399.59	1399.59	1399.59
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	
8	Earnings Per Share (of Rs.101- each) (for continuing and discontinued operations) 1. Basic:	0.19	0.19	0.07
	2. Diluted	0.19	0.19	0.07

By order of the Board For CMS FINVEST LIMITED Sd/- Surendra Kumar Jair

HINDUSTAN MOTORS LIMITED

CIN - L34103WB1942PLC018967 Regd. Office - "Birla Building", 13th Floor, 9/1, R. N. Mukherjee Road, Kolkata-700.001 Email - hmcosecy@hindmotor.com; Website-www.hindmotor.com; T +91 033 22420932; F +91 033 22480055

Extract of Financial Results for the Quarter / Year ended 31st March, 2021 (Rs. In Lakhs)

Particular	Quarter ended 31.03.2021 (Audited)	Year ended 31.03.2021 (Audited)	Quarter ended 31.03.2020 (Audited)
Total Income from Operations / Other income	472	1,218	106
Net Profit / (Loss) for the period (before tax and exceptional Items*)	308	623	(53)
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional Items*)	308	623	(53)
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional items*)	158	376	(39)
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	122	362	(48)
Equity Share Capital (Excluding amount in respect of forfeited shares)	10433	10433	10433
Earnings Per Share (face value of Rs. 5/- per share)			
Basic & Diluted :	0.08	0.18	(0.02)
* The Company does not have any	Extraordinary ite	ims to report for th	e above periods

The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective Meetings held on 30th June, 2021 we nound or Livectons at their (respective Meetings held on 30" June, 2021. The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the Quarter / Year ended March 31, 2021, fleet with the Stock Exchanges under Regulations 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the Quarter / Year ended March 3, 7021 is available on the websteed on BSE and NSE at www.bseinda.com on www.mselndia.com respectively and on Company's website of year.

For Hindustan Motors Lim

(Uttam Bo

केनरा बैंक Canara Bank

GOTEL SED CALLION IN SECURITION OF SEC

persymbite Syndicate Bank amalgamated into Canara Bank with effect from 1" Agrid on of Gazette of India No. 688 No. 15% (6 and 4" March 2020 issued by Government of I SALE NOTICE

Tion Sale Notice for Sale of Immovable Properties. tice for Sale of Immovable Properties under the Security Interest Act, 2002.

10 Rule 8 (6) of the Security Interest Act, 2002.

10 Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

and the public in general and in particular to the Bornower (6) and below described immovable properties mortgaged (7) and the public of Physical possession of the public of Physical possession of the public of t Robics is netherly given to me public in general aim in particular to the software. Guaranter (5) that the below described memorable properties mortgaged charged to the Scienced Creditor, the Physical passessation of which has been taken by the Authorities (Morter of Canars Bank (Glywdicele), in the sold on "As is where it," As it what is "Wallburst then it," and it will be sold on "As it where it," As it what is "Wallburst then it," and it will be a sold on "As it where it," As it what is "Wallburst then it," and it will be a sold on "As it where it," As it what is "Wallburst then it," and it will be a sold on "As it where it all the interval of the "Wallburst" on 2007 18. The wall of the work of the sold of the sold of the "Wallburst" on 2007 18. The wall of the wall of the wall of the "Wallburst" on 2007 18. The wall of the wall of the "Wallburst" on 2007 18. The wall of the "Wallburst" of the wall of the "Wallburst" of the wall of the "Wallburst" of the wallburst wall of the "Wallburst" of "Wall

Pramukin Giosures PVI. Lto., 33-K, Laxini industriai Estate, Andrieri (W) Muridai.									
Sr. No.	Description of the Property		Earnest Money Deposit (in ₹)						
	All Two Flats Combined together as one single Flat bearing No. S1 & S2 admeasuring 130.58 sq. mts		₹ 4.23 Lakhs						
١.	situated on the 2 nd Floor of Building "B" constructed in the property known as "DEPOIBATA" on plot	(Forty							
١.	surveyed under Chalta No. 67 of P. T. Sheet No. 134 situated Near Pai Palace Hotel, Borda within the	Two Lakhs Thirty	(Four Lakhs Twenty Three						
	area of Margoa Municipal Council, Salcete Tal., Goa. (Excluding Furniture & movable items)	Thousand Only)	Thousand Only)						

(Inxiguing) Furniture & movable items) with the Earnest Money (Popps) and the Earnest Money (Popps) shall be deposted on or before 19.07.2021 uplo 5.00 p.m. Details of EMD and other documents to be submitted to service provider on or befor 19.07.2021 uplo 5.00 p.m. Date of inspection of properties with prior appointment with Authorised Officer as below:

Date of Inspection of properties with prior appointment with Authorised Officer as below:

Buth & Time of Impaction [16] TO 2210 theme 1200 p. m. to 200 m. inchip varginamini.

Date up to which documents can be disposited with Bark is 19.07.2021 spilo 540 p. m. For detailed terms and conditions of the side, please refer the link "F-Autenia" provider in Casara Bank's website (www.carazahank.com) or may contact. Mr. F-Autenia" provider in Casara Bank's website (www.carazahank.com) or may contact. Mr. F-Autenia" provider in Casara Bank's website (www.carazahank.com) or may contact. Mr. F-Autenia" provider in Casara Bank's website (www.carazahank.com dum) cara (www.bankaa).

Branch, Munthal (Mob. No. 7832026670) or Mr. Yopesh Dhurandhar Manager (Lawy) (Mob No. 3699995355) em 10 : c. b025996-centrabank.com dum) office hours on any working day; or the service provider Mrk. C1 India Pri. Ltd., www.bankaaacutcom.com, Udhoyo Virus, Planse-2, Guil Perdochen Building, Billy No. 301, Gurgaon, Haryana-12015 (Contact No. +91-1244920000, 20, 21, 22, 22, 24, Mr. Hariath Gwad Mob. No. 5073866836 Email: jay.singh@c1inda.com er Email: support@charkacutos.com).

STATUTORY 15 DAYS SALE NOTICE UNDER SARFAESI ACT ers / Guarantors are hereby given notice to pay the sum mentioned late of auction, failing which the property will be auctioned and bala wered with interest and cost from them by legal avenues.

Sd/-Authorised Officer, CANARA BANK (eSyndicate) Date : 29.06.2021 Place : Mumbai

PUBLIC NOTICE

SMIFS CAPITAL MARKETS LIMITED

Regd. Office: 'Vabihav' 4F, 4. Lee Road, Kolkata – 700 020
CIN NO: LT/4300WB1889FLC036842
Tel No. 033-2280-7400/ 7401174020544 Fax No. 033-2287-4042, 2240-6884

E-mail: smifcap@gmail.com, cs.smifs@gmail.com Website: www.smifscap.com

E-mail: smifcap@mail.com, cs. smifc@gmail.com. Website: www.smifscap.com
NOTICE TO SHAREHOLDERS
For transfer of shares to the liveseibre Education and protection Fund (IEPF) Account
(As per Section 124(6) of the Companies Act, 2013 and with Investor
Education and Protection Fund (IEPF) Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund)
Rules, 2016 (The rules), the Company's recigulated to transfer the shares, in respect of
which the dividend remains unpead or unclaimed for a period of seven consecutive years
orner to the IEPF Account established by the Central Government.
The Company has sent individual communication to the concerned shareholders who
have not encashed the final dividend for the financial year 2013-14 and all subsequent
dividends declared and paid by the Company, which are liable to be transferred to IEPF
Accounts as per the said Rules.

counts as per the said Rule:

Accounts as per the said Rivies.

All of such sharbardoes who have not encashed their dividends for seven consecutively again and whose share and dividend amount are therefore liable for transfer to EPI Accounts displayed not not here whelled of the Company was small stage, corn

Shareholders are requested to forward the requisite documents as mentioned in said committed and the Company's Register and Share Transfer and Share Transfer Agent on or before 100 Clobber, 2021 to claim the shares and unclaimed dividend amount(s). Notice is hereby given that in the beaches of receipt of a wild claim by the shareholder, the Company value to the company of the compan

transferring the said shares to LEPF Account without further notice in accordance to lowing the process are mentioned below: In case of shares held in Physical form - by issuance of duplicate share certificates on half of the oncoment members and their transferring the same to LEPF Authority. In case of shares held in Demat form-by transferring the shares directly to Demicount of IEPF Authority with the help of Depository Participant. ease note that no daim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividen and the shares of the shares of

Please note that no claim stall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to EPE pressant to the said Rides. Any persons de-shareshurpaid dividend is transferred to the Fund may claim the shareshiddend from the linester Education and Protection Fund Authority pursuant to the provisions 50cm 124 and 125 of the Act and the Rides by submitting an online application in Form IEPF-5 available on the webster wave liet given with a copy to the Company. For any information clarifications on this matter, concerned shareholders may write to the Company at smirring@igmail.com / e.e. semis@gimal.com or contact the Company. Rogisters and Share Transfer Agent. Mis Maheshwari Datamatics Private Limited, 23, R. Mukherjere, Broad, Shir Flore, Kokalar 700001, Kolkalar-700001. Tel. 033-22435029/22492248. Email: mdpido@yahoo.om.

For SMIFS Capital Markets Limited

(Poonam Bhatia) Company Secretary-cum-Senior Manager Legal

দাত্তান লীছালল নীক 🔘 punjab national bank

Head Office: Plot No. 4, Sector 10, Dwarka, New Delhi – 110075 (Email hosd@pnb.co.in)

(cmail nosogepno.co.in) NOTICE OF THE 20™ AGM OF THE BANK TO BE HELD THROUGH VC/OAVM

NOTICE IS HEREBY GIVEN hat the 20" Annual General Meeting of the Shareholders of PUNJAB NATIONAL BANK will be held on Monday, the 26" July 2021, at 11.00 am, (IST through Video Conferencing (VC) / Other Audio Vissual Messis (QAMf) facility compliance of the applicable provisions of the SEBI (LOOR) Regulations, 2015 read with General Circular No. 2022/21 dated 13" anaura, 2021 issued 13" anaura, 2021 issued 13" Anianay, 2021 issued 13" anaura, 2021 issued 13" anaura, 2021 issued 13" anaura, 2021 issued 13" anaura, 2021 issued 15" anaura, 2021 issued

Ordinary Business

To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31" Marcl 2021, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31" March 2021, the Report of the Bank of the Bank for the Bank for the Bank for the Period Coverer by the Accounts and the Auditor's Report on the Bank for the Period Coverer by the Accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.

- The Notice of the 20th AGM and the Annual Report for the year 2020-21 will be s In Produce of the 2D x Add and the Parliad Report of the Parliad R
- the purpose of recisioning the quotient for the recisions for principles of recisioning the Asia Mirough.
 VCOVAM are settled in the detailed holica of AGM.

 The Notice of the AGM and the Annual Report will also be available on the website of the Bank is an waynehindaila and the Reveales of the Stock Exchanges is a BSE.

 Limited and National Stock Exchange of India Limited at wavn.bearlad.com and wavn.seindia.com on the wavn.seindia.com in the second of the Asia Mirough VCOAM and service through the CoAM and service through the CoAM and service through the coam and the settled and the AGM and the AGM through VCOAM and service through the CoAM and service through the coam and the settled and the AGM and th
- Monday 25° July 2021 (both days inclusive). Vehicip through Electron Means: Shareholders may please note that in compliance of Regulation 44 of SERII (LODR) Regulations, 2015 and the provisions of Blue 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended FIE-voling, Rules¹] read with McA Circulurs. the Bank is pleased to provide its shareholders the facility to secretise their right to vole in respect of the Subress to be transacted at the AGM by electronic means (remote e-voling and e-voting during the AGM) through the ve-voling platform provided by National Securities Depository. Limited (NSDL) and the shareholders may follow the procedure as detailed in the Notice of the AGM A opy of Notice of AGM shall also be made available on the website On NSDL at www.evoting.nsdl.com
 The remote e-voling will commence on Thursday, 22° July, 2021 (500 p.m.) and shall not be allowed beyond this date and time.
- end on Sunday, 25" July, 2021 (500 p.m.) and shall not be allowed beyond this dictal and time.

 Cut-OTD Date: The Bank has fixed Monday, 19" July, 2021 as the Cut-OTI Date for determining voluming rights of Shareholders entitled to participate in the remote e-voling process i e-volting at the AGM in respect of the business to be transacted at the Meeting. Any present, with acquires shares of the Bank and becomes a shareholder after emailing of the Annual Report (including Notice of AGM) and folding shares as on the Cut-OTI Date is 19" July, 2021, no yellowing horizon as provided in the on the Cut-OTI Date is 19" July, 2021, no yellowing horizon as provided in the whose name is recorded in the Register of Shareholders' Beneficial owners (mariatized by the Epopolishers) as not the Cut-OTI Date only shall be entitled to avail the facility of remotes e-voling et with AGM.
- The tealiby of remote e-voting of the AGM. Voling Rights: In times of provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the Bank other than Central Covernment shall be seritled to secresio witing rights in respect of the shares held by him in excess of 10% of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. If any share stands in the name of hour or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.
- holder thereof. In terms of the E-voting Rules, shareholder may participate in the AGM even after executing his right to vote through remote e-voting but such shareholder shall not be allowed to vote again at the AGM. Shareholder shall not be allowed to vote again at the AGM. Shareholder shall not be are requested to register the same with the Bank's Registrar and Share Transfer Agent Le. Mis Beatla Financial & Computer Services (P) Ltd. at beatla(gleediffamical.com while those Stereholders who are holding shares in beatla(gleediffamical.com while took Stereholders who are holding shares in approach that OP for the same, at the earliest.
- approach their UP for the same, at the earliest.

 11. Shareholders holling shares in physical form or who have not registered their email with the Bank/Depositor, are requested to follow the procedure for casting volt through remote e-voling or-voling at the AGM as stipulated in the Notice of the AGM.

 12. In case of any query/igirevance connected with the facility for e-voling or attending the AGM strought of the South of the Control of the AGM and through V.C. Stareholders may content Ms. Pallar Mahan. Manager a evolting@insdi.co.in (Contact Mos.: +91:22-2499 430: +91:22-2499

By order of the Board of Directors For Punjab National Bank



GUJARAT SIDHEE CEMENT LIMITED

(CIN : L269406/1973PLC002245)

Regd. Office : At 'Sidheegram', PO Prashnavada BO Via Sutrapada SO - 362275, Off Veraval-Kodinar Highway,

Dist. Gir Sonnath (Gujarat). Phone : 02876-268200 Fax : 02876-286540 Emall: cfo@mehtagroup.com Website : www.mehtagroup.com

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND THE YEAR ENDED MARCH 31, 2021										
	Standalone				Consolidated					
Particulars	Quarter ended		Year ended		Quarter ended			Year ended		
raticulais	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
		(Unaudited)		(Audited)	(Audited)		(Unaudited)		(Audited)	(Audited)
	₹in Lakhs	₹in Lakhs	₹in Lakhs	₹in Lakhs	₹in Lakhs	₹in Lakhs	₹in Lakhs	₹in Lakhs	₹in Lakhs	₹in Lakhs
Total Income from Operations	19,571.45	15,656.43	16,681.50	57,298.00	58,988.36	19,712.35	15,657.63	16,819.83	57,445.10	59,230.25
Net Profit / (Loss) for the period before tax	3,128.14	13.19	2,311.35	4,715.32	6,488.51	3,268.64	15.54	2,451.00	4,866.00	6,737.08
Net Profit / (Loss) for the period after tax	1,961.99	(13.91)	1,490.32	2,929.00	4,241.25	2,079.04	(11.98)	1,627.93	3,054.50	4,483.94
Total Comprehensive Income after tax	1,956.82	(44.90)	1,485.18	2,905.67	4,207.88	1,875.82	3,296.45	284.29	7,845.67	1,794.06
Equity Share Capital	8,825.49	8,825.49	8,747.84	8,825.49	8,747.84	8,825.49	8,825.49	8,747.84	8,825.49	8,747.84
Other Equity				35,534.74	32,622.33				36,667.94	28,815.53
Basic Earnings per Share of ₹ 10 each (not annualised) - In ₹	2.22	(0.02)	1.70	3.32	4.86	2.36	(0.01)	1.86	3.47	5.14
Diluted Earnings per Share of ₹ 10 each (not annualised) - In ₹	2.20	(0.02)	1.70	3.29	4.85	2.33	(0.01)	1.86	3.43	5.13

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchanges velocities wave Seedings come and verwascellands. come and Company's wishelse galarstited Research secretary.

By the Order of the Board, For Gujarat Sidhee Cement Lim

PIONEER INVESTOORP LIMITED

(CIN: 1.65990MH1984PLC031999)
Regd. Office: 1218, Maker Chambers V, Nariman Point, Mumbai 400 021. Tel. no. 022 - 6618 6633 / Fax no. 2204 9195
Website: www.pinc.co.in email.: investor.relations@pinc.co.in

AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH. 2021

Г				STANDALONE						CONSOLIDATED				
Sr No	Particulars	Current quarter ended 31.03.2021 (Unaudited / reviewed)	Previous Quarter ended 31.12.2020 (Unaudited / reviewed)	Previous year Quarter ended 31.03.2020 (Unaudited / reviewed)	Year to date figures for the current period 31.03.2021 (Audited)	the previous period ended 31.03.2020	Current quarter ended 31.03.2021 (Unaudited / reviewed)	Previous Quarter ended 31.12.2020 (Unaudited / reviewed)	Previous year Quarter ended 31.03.2020 (Unaudited / reviewed)	Year to date figures for the current period 31.03.2021 (Audited)	Year to date figures for the previous period ended 31.03.2020 (Audited)			
1	Total Income from operations	954.28	659.31	930.00	2,567.06	3,511.85	1,198.91	786.08	2,280.04	3,112.78	4,288.35			
2	Net Profit / (Loss) for the period													
ı	(before Tax, exceptional and/or extraordinary items)	165.00	11.92	59.34	254.83	340.07	188.49	9.18	332.25	279.65	498.67			
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax,													
Ш.	(after exceptional and/or extraordinary items)	165.00	11.92	59.34	254.83	340.07	188.49	9.18	332.25	279.65	498.67			
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinay item)	5.90	7.08	24.54	63.43	217.51	26.80	17.17	196.45	87.96	311.15			
a	Total Comprehensive Income for the period	3.50	7.00	24.04	03.43	217.01	20.00	17.17	180.40	07.00	311.13			
ľ	(comprising Profit / (Loss) for the period (after tax)													
ı	and other comprehensive Income	50.76	31.61	37.43	120.91	223.90	76.74	48.30	208.09	152.72	323.17			
6	Equity Share Capital	1229.69	1229.69	1229.69	1229.69	1229.69	1229.69	1229.69	1229.69	1229.69	1229.69			
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown													
ı	in the Balance sheet of previous year)				-	-				-	-			
8	Earning Per Share (for continuing and discontuning													
П	operations) (of Rs.10/- each)								1					
П	Basic	0.05	0.06	0.20	0.52	1.77	0.22	0.14	1.60	0.72	2.53			
L	Diluted :	0.05	0.06	0.20	0.52	1.77	0.22	0.14	1.60	0.72	2.53			

Dibade: https://doi.org/10.1009/10.100

GAURANG GANDE



VIP CLOTHING LIMITED

Email ID: inves Tel: 91-2825 7624, 2825 7627 Fax: 91-22-2837 1023; CIN: L18101MH1991PLC059804 EXTRACT OF THE AUDITED (STANDALONE) FINANCIAL RESULTS FOR

THE QUARTER & FINANCIAL YEAR ENDED MARCH 31, 2021

			Quarter Ende	d	Year Ended				
Sr. No.	Particulars	Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited			
140.		31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020			
1	Total Income from Operations (Net)	4,256.85	4,178.50	3,105.84	14,511.84	17,553.62			
2	Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax	(22.04)	460.72	(1,299.08)	(102.23)	(1,505.74)			
3	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	(22.04)	460.72	(1,299.08)	(102.23)	(1,505.74)			
4	Equity Share Capital	1,651.93	1,651.93	1,651.93	1,651.93	1,651.93			
5	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	11,853.29	11,927.33	12,007.50	11,853.29	12,007.50			
6	Earnings Per Share (before extraordinary items) (Face Value of ₹ 2/- each) a) Basic : b) Diluted:	(0.02) (0.02)	0.55 0.55	(1.58) (1.58)	(0.13) (0.13)	(1.81) (1.81)			
7	Earnings Per Share (after extraordinary items) (Face Value of ₹ 2/- each) a) Basic :	(0.02)	0.55	(1.58)	(0.13)	(1.81)			

- 1) The above is an extract of the detailed format of the Financial Results for the quarter and financial year ended March 31, 2021 filled with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of the Sandalone Audited Financial Results for the quarter and financial year ended March 31, 2021 is available on the Stock Exchange websites. (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and also on the Website of the Company at www.vlpclothing.in.
- The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on June 30, 2021.

For VIP Clothing Limited

Date : June 30, 2021 Place: Mumbai

Sunil Pathare Chairman & Managing Director



Warren Tea Limited

Registered Office: Deohall Tea Estate P.O. Hoogrijan, Dist. Tinsukia, Assam 786 601

Tel : +91 95310 45098, CIN: L01132AS1977PLC001706, Email : corporate@warrentea.com, Website : www.warrentea.com

EXTRACT OF STATEMENT OF AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS
FOR THE FOURTH QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021

					(Figt	ules III Ciakiis)
		STANDALONE		C	ONSOLIDATE	D
PARTICULARS	Quarter Ended on 31.03.2021	Year to Date Ended on 31.03.2021	Ended on	Quarter Ended on 31.03.2021	Year to Date Ended on 31.03.2021	Quarter Ended on 31.03.2020
Total Income from Operations	1225	10801	965	1225	10801	965
Net Profit before exceptional Items and Tax	(135)	13	(2340)	(135)	13	(2340)
Net Profit for the period after exceptional items and before Tax	750	2031	(2340)	750	2031	(2340)
Net Profit for the period after Tax	1962	3243	(1589)	1962	3243	(1589)
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1790	3437	(1435)	1752	3245	(1467)
Equity Share Capital	1195	1195	1195	1195	1195	1195
Reserves excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet		8569			9217	
Earnings per Share (of ₹ 10/- each)						
- Basic and Diluted Earnings (In Rupees)	16.42	27.14	(13.30)	16.08	25.52	(13.56)

The above is an extract of the detailed format of Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the fourth quarter and year ended on 31st March, 2021 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Standalone and Consolidated Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.cse-india.com) and on the Company's website.

चौथी तिमाही में शुद्ध 1,314.45 _{1,280} लाभ तीन गुना बढ़ा

1,231.75 1,180 1,231.16 पिछला बंद भाव 1,231.201 Juni Juni 1,231.8 पिछला बंद भाव 1,314.5 आज का बंद भाव **▲** 6.7 %

मनाली पेट्रोकेमिकल्स 83.157 ⁸⁴ चीथा ।तनाल - . . . 83 लाभ ६ गुना उछला 82.15

▲ 1.2 %

▼ 3.7 %

ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ²⁵ चौथी तिमाही में घाटा बढ़कर 413.85 415 111 करोड़ रूपये हुआ

एम्बेसी ऑफिस पार्क्स रीट 349.44 346 200 यूनिट से घटाकर 350.09 1 यूनिट किया

337.67 Jun 2021 ▲ 0.2 %

संक्षेप में

अनुपालन के लिए सेबी ने बढाई समयसीमा

बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को ब्रोकरों के लिए नियामकीय अनुपालन की समयाविध 30 जून से बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी। जहां नई समयसीमा लागू होगी उनमें क्लाइंटों से मिले ऑर्डर की कॉल रिकॉर्डिंग रखना, क्लाइंटों की फंडिंग की सूचना और वैकल्पिक कार्यस्थल से ट्रेडिंग टर्मिनल के परिचालन की अनुमति शामिल है। सेबी ने कहा कि कोविड महामारी और सरकार की तरफ से ... नामान निरामात जार सरकार का तरफ स लगाए गए लॉकडाउन के कारण समयसीमा बढ़ाई गई है। *बीय*न

एनबीसीसी को 83 करोड रुपये का मनाफा

सार्वजनिक क्षेत्र की निर्माण कंपनी एनबीसीसी ने बुधवार को बताया कि 31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही के दौरान उसका समेकित शुद्ध लाभ 83.30 करोड़ रुपये रहा। एक साल पहले की समान अविध क्याड़ रूप्य (हा। एक साल पहल का समान अवाध में उसका शुद्ध लाभ 83.77 करोड़ रूपये था। एनबीसीसी ने शेयर बाजार को बताया कि समीक्षाधीन तिमाही में उसकी कुल आय बढ़कर 2,706.80 करोड़ रूपये हो गई, जो पिछले साल की इसी अवधि में 2,651.43 करोड़ रूपये थी। भाग,

सुजलॉन एनर्जी को 54 करोड रुपये का घाटा

सुजलॉन एनर्जी ने बुधवार को बताया कि 31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही के दौरान उसका समेकित शुद्ध घाटा कम होकर 54.25 करोड़ रुपये रह गया। सुजलॉन एनर्जी ने शेयर बाजार को बताया कि 31 मार्च 2020 को समाप्त तिमाही में उसका समेकित शुद्ध घाटा 834.22

कोवेक्सीन की खरीद पर भारत बायोटेक ने स्पष्ट किया

ब्राजील से नहीं मिला भुगतान

सोहिनी दास मुंबई, 30 जून

वैक्सीन की खरीद के संबंध में ब्राजील में बढ़ते विवाद के बीच इसकी विनिर्माता भारत बायोटेक ने स्पष्ट किया है कि उसे उस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय से कोई अग्रिम भुगतान नहीं मिला है। जहां तक सिंगापुर की कंपनी मैडिसन बायोटेक का सवाल है, जो ब्राजील के अभियोजकों और विधि निर्माताओं के निशाने पर आ गई है उसके संबंध में हैदराबाद स्थित इस टीका विनिर्माता ने कहा कि यह उसके प्रवर्तक कृष्णा एल्ला द्वारा स्थापित फर्म है।

कृष्णी एल्ली द्वारी स्थापित फम है। बुधवार सुबह एक्सियों ने खबर दी है कि ब्राजील भारत बायोटेक के साथ कोवैक्सीन की दो करोड़ खुशकों की खरीद वाले 32.4 करोड़ डॉलर के सौदे को स्थिगत कर देगा। कोवैक्सीनगेट कहा जाने वाला यह विवाद कोवैक्सीन के दाम (पति खुराक 15 डॉलर) और मैडिसन बायोटेक द्वारा पेश किए गए 4.5 करोड़ डॉलर के बिल से संबंधित है, जिसका नाम टीका आपूर्ति अनुबंध में शामिल नहीं है। भारत बायोटेक ने कहा कि ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ पहली बैठक

नवंबर 2020 में हुई थी और 29 जून, 2021 तक बैठकें जारी रहीं। कंपनी ने कहा कि आठ महीने वाली की इस लंबी प्रक्रिया के दौरान अनुबंधों और विनियामकीय मंजूरियों के लिए चरणबद्ध पद्धति का पालन किया गया है। आपातकालीन उपयोग का अधिकार (ईयूए) इस साल 4 जून को प्राप्त



 कोवैक्सीन्गेट कहा जाने वाला यह विवाद कोवैक्सीन के दाम और मैडिसन बायोटेक द्वारा पेश किए गए बिल से संबंधित है कंपनी ने दावा किया है कि 29 जुन तक उसे न तो कोई अग्रिम भुगतान मिला है और न ही उसने बाजील के स्वास्थ्य मंत्रालय को किसी टीके की आपूर्ति की है

हुआ था। कंपनी ने दावा किया है कि 29 हुआ था। कंपना न दोवा किया है। के 29 जून तक उसे न तो कोई अग्रिम भुगतान मिला है और न ही उसने ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय को किसी टीके की आपूर्ति की है।

कई देशों द्वारा कोविड-19 टीकों की खरीद प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताते हुए भारत बायोटेक ने कहा कि टीकों के लिए अग्रिम भुगतान किया जाता है। जब कोई देश किसी आशय पत्र या किसी समझौता ज्ञापन के जरिये टीके खरीदने के लिए अपनी रुचि का संकेत देता है, तो टीका विनिर्माता उस देश के विनियामक से ईयूए की मांग करने के आगे आता है। इस ईयूए के बाद खरीद होती है। फिर देश का स्वास्थ्य विभाग खरीद की मात्रा का संकेत देते हुए खरीद का ऑर्डर जारी करता है।

करता ह। कंपनी ने एक बयान में कहा कि भारत बायोदेक ने दुनिया भर के कई देशों में, जहां कोवैक्सीन की सफलतापूर्वक आपूर्ति की जा रही है, अनुबंधों, विनियामकीय मंजूरियों और आपूर्ति के लिए समान पद्धति

का पालन किया है। कंपनी ने दावा किया है कि भारत के बाहर की सरकारों को आपूर्ति के लिए कोवैक्सीन की कीमत प्रति खुराक 15 से 20 डॉलर के बीच रखी गई है।

दीर्घकालिक अनुबंधों से बनाएं निष्क्रिय क्षमताः पूनावाला

सीरम इंस्टीट्यट के सीईओ अदार पनावाला ने कहा है कि भविष्य की वैश्विक महामारियों की तैयारी के लिए उन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर खाली टीका विनिर्माण क्षमता तैयार करने की जरूरत है जहां बड़े पैमाने पर टिका उत्पादन की क्षमता नहीं है। मात्रा के लिहाज से टीका बनाने वाली दनिया की सबसे बड़ी कंपनी के सीईओ पूनावाला ने इंडियन ग्लोबल फोरम को संबोधित करते हुए यह बात कही।

पूनावाला ने कहा कि इसका मतलब किसी ऐसे देश अथवा क्षेत्र के साथ दीर्घकालिक अनुबंध करना है जहां टीका बनाने की क्षमता नहीं है। ऐसे में उन्हें प्राथमिकता देने और एक निश्चित मूल्य पर करार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, 'मान लीजिए कि आपने एक मामूली आरक्षण शुल्क के साथ किसी विनिर्माता से 15 वर्षों के लिए निष्क्रिय क्षमता का करार किया है तो महज एक बटन दबाने भर से वह पूरे क्षेत्र के लिए प्राथमिकता के आधार पर विनिर्माण कर सकता है।' इस विनिर्माण केंद्र में विभिन्न प्रौद्योगिकी एवं उत्पादों को रखा जा सकता है।

पूनावाला ने इसे विस्तार से बताते हुए कहा कि मान लीजिए अगले पांच साल बाद कोई वैश्विक महामारी आती है और यदि कोई एमआरएनए अथवा वायरल वेक्टर टीका तैयार किया जाता है तो उसका विनिर्माण कहां करेंगे। इसके लिए फिर नए साझेदार तलाशने होंगे, क्षमता तैयार करनी होगी और मूल्य निर्धारण आदि पर बातचीत करनी पडेगी।

पनावाला ने कहा कि इसके बजाय कोई देश

 विनिर्माताओं के साथ निष्क्रिय क्षमता के लिए दीर्घावधि अनुबंध करें देश

सीरम इंस्टीट्यूट ने इसके लिए कुछ देशों एवं क्षेत्रों से संपर्क किया है

 इससे भविष्य की वैश्विक महामारी से तेजी से निपटने में मदद मिलेगी

(15 साल या इससे अधिक) के लिए निष्क्रिय (15 साल या इसस आवक) के लिए गिर्फ़्रिय क्षमता की बुकिंग करने का विकल्प चुन सकता है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, 'बहुत सारे देश ऐसा करने के लिए तैयार हैं।' उन्होंने कहा कि देश अब अंतरिक्ष कार्यक्रम अथवा लड़ाकू विमान में निवेश करते हैं तो भविष्य के लिए खाली क्षमता निर्माण के लिए निवेश क्यों नहीं कर सकते। उनका मानना है कि वैश्विक स्तर पर ऐसे चार से पांच बड़े केंद्र बन सकते हैं।

पूनावाला ने कहा कि गुणवत्ता मानकों के मोर्चे पर वैश्विक सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, 'मैं वैश्विक नियामकों से एक सामान्य गुणवत्ता मानक पर आने का आग्रह करूंगा। इससे टीका प्रमाण पत्र, सीजीएमपी मानक और क्लीनिकल मानकों को मान्यता मिलेगी। हमारे पास अलग-अलग क्लीनिकल परीक्षण के लिए अलग-अलग लोग नहीं होंगे। यदि तैयारी करेंगे तो हम भविष्य की वैश्विक महामारियों से कहीं अधिक तेजी से निपट सकते हैं। इस बीच, पूनावाला का मानना है कि डब्ल्यूएचओ के नेतृत्व में कोवैक्स का भारत से निर्यात जल्द ही शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस साल के अंत तक कोवैक्स के लिए भारत से कई टीके आएंगे और न केवल सीरम इंस्टीट्यट से बल्कि अन्य विनिर्माताओं की आरे से टीके आएंगे।

> जिसे बिक्री के लिए पोस्ट किया गया है। हम इसे स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह डेटा का

उल्लंघन नहीं है और न ही किसी लिंक्डइन सदस्य का निजी डेटा

उजागर हुआ है। हमारी शुरुआती जांच में पाया गया है कि वह डेटा

लिंक्डइन एवं अन्य तमाम वेबसाइट से स्क्रैप किए गए डेटा

हैं। इसमें ऐसे डेटा भी शामिल हैं जिनके बारे में इसी साल अप्रैल मे

हमने स्क्रैप किए जाने की जानकारी दी थी।' *बीएस*

EXIT OFFER PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS OF Universal Prime Aluminium Limited (Formerly: Universal Cans and Containers Limited) (Formerly: Universal Cans and Containers Limited) (Registered Office: 1º Foor Century Bravan, 771, Dr A & Foad, Worl, Murmbal - A00025 Tel 022 243014 Se. Famil: Laudiple/Jamania.com

mournal 400025 etc. 022-24304198. E-mail: upalbby@gmail.com (Corporate Identification Number (CIN): L28.129MH1971PLC015207) Exit Offer Public Announcement ("Exit Offer PA") is being issurdance with Regulation 21 and other applicable provisions of the Sec Indeed, 130: A company from the Property of the United Property of t

Ited (BSE).

MINIMATION OF DATE OF DELISTING

Pursuant Delisting ofter made by Mr. Fraksah kumar Mohta (the Promote Aquirer) to the justice shareholders of the company and after receipt consent of the requisite public shareholders, an application was filled abmarby Slock Exchange (BSE Limited) for delisting of Equity shares of the company from BSE.

SSE vide its Circular number 2021/0607-3 dated June 07, 2021 ("BSE Film

BSE vide its Circular number 20210607-3 dated June 07, 2021 ("B Delisting Approval"), has communicated that trading in the Equity of the Company (Scrip Symbol: UNIVPRIM) discontinued from tradi June 14, 2021. Further the admission to dealinos in Commanu's Ferrit June 14, 2021. Further the admission to dealings in Company's Equity Share was withdrawn (delisted) web. June 21, 2021. 'ERSE Date of Delicity ILISTING OF THE COUNTY SHARES OF THE COMPANY MEANS THAT THE COUNT JARES OF THE COMPANY CANNOT AND WILL NOT BE TRADED ON BSE. OUTSTANDING EQUITY SHARES AFTER DELISTING

OUTSTANDING EQUITY SHARES AFTER DELISTING in accordance with regulation 2(1) of the Delisting Regulations, and a amounced earlier in the Plest Offer PA, the Residual Public Shareholders and the Company who did not participate as owner on the be participate in the delisting Process or who unexcoestfully tendered their Equity Shares in the Company who and are currently holding Equity Shares in the Company will be able to offer their Equity Shares to the Acquirers at the price of RS. 350°- per Equity Shares for the Company of th

"Exit Window",

The Exit Letter of Offer along with Exit Application Forms ("Exit Letter Offer") in this regard shall be dispatched to the Residual Public Shareholder whose names appear in the register of members of the Company as on the Date of Deleting, in the event of any Shareholdern orter-enving, or mispation their Exit Letter of Offer, they may obtain a copy of the same by writing the Repicitary of the Deletion Offer, Abbestways (Datamatics Privide) Limits. PAYMENT OF CONSIDERATION TO RESIDUAL PUBLIC SHAREHOLDERS

PAYMENT OF CONSIDERATION TO RESIDENT. 100.00.

Subject oan yrequiotry approvals as may be required, the Acquirers inten to make payments on a monthly basis, within 10 days of the end of the relevant calendar month? (Monthly Paymed Cycle). Payments will be made only to those Shareholders who will validly tender their Equity Shares, b following the instructions laid out in the Exit Letter of Offer. The Acquirer reserve the right to make the payment earlier, useries may be directed to the Company at the Registered office address.

Side

On behalf of all the Acquirer(s)/Promoter(s Prakash Kumar Mohta

बिज़नेस स्टैंडर्ड

ाष पुणि एट एट एट हो हो स्टिप्टरण मुंबई होस्टरण विव्यंत्रेस स्टेंडर्ड प्रावृद्धेट लिगिसेट के लिए प्रकाशक एवं मुस्क संगीता क्रोओरा द्वारा में. गोजर मीडिया प्रावृद्धेट लिगिसेट, यू. वीचा एमआईडीती, वेटीसी इंडोईट्सल एरिया, किण्यु मन्तर, वीचा, मन्त्री प्रवृद्धे-क्याण्डल से मुस्ति एंट एया श्चर्ट आईड्री, हिस्किंट पूर्व, पेराज्य सेंटर, विवृद्धा संयुद्धिय के सामने, यो बी मार्ग, वर्षी, मृंबई-400013 से प्रकाशित गोजफ में म्हण्या संगिताल संगिताल

आरएनआई न० WBHIN/2008/24333 पाठक संपादक को lettershindi@bumalin पर संदेश केज सकते हैं। देलीफोन - 033-22101314/1022/1600 फैक्स- 033-22101599 सबरिक्षणना और सकुंतेशन के लिए कृपया संपर्क करें.. प्रजेन - 033-2210134/1022/1600 फेक्सर - 033-22101599 समिकिम्सन और सर्कुलेशन के शिला प्रपणा संपर्क करें... युत्री मानारी रिंह हेड करहमर टिलेश्वस नेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, तिसरी और वीमी मीजन, विहिन्हेंग एवं, हेंदर, सेंपुरी मिल्स के सामने, पी बी मार्ग, वर्ती, मुंबई 400 013 ई में सर, और ताऊ bradbemand.

ई मेल.. subs_bs@bsmail.in या ५७५७७ पर एसएमएस करें REACHBS

सा 57570 पर एसएसएस कर कार-प्रकार के साम अंतर है कि साम अंतर है से साम अंतर कार रिकेट के स्वार्धित कर कि साम कि साम रिकेट कर कि साम अंतर के साम अंतर कार के साम अंतर के साम अं

कोई हवाई अधिभार नहीं

लिंक्डइन के डेटा में सेंधमारी का आरोप रीस्टोरप्राइवेसी ने यह खबर दी है। इस वंबसाइट के अनुसार, एक लोकप्रिय हैकर फोरम के एक उपयोगकर्ता ने 22 जून को 70 रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे कथित तौर पर उसके 70 करोड़

मामला सामने आया है। एक

मॉडल के तहत तीन साल के लिए एव जारीकर्ता के रूप में राष्ट्री जारीकर्ता के रूप में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (एनईटीसी) के कार्याज्यवन के लिए विक्रेता का चयन'' हेतु मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित हैं। बिनिर्देशों और अन्य प्रासंगिक विवरणों के लिए, कृपवा बैंक की वेबसाइट www.psbindia.com पर जाएं। उक्त निवंदा से संबंधित कोई भी बदलाव बैंक की वेबसाइट पर ही

उप महाप्रबंधक (ए.डी.सी)

लिंक्डइन के डेटा में बड़े पैमाने पर सेंधमारी किए जाने का किथित तीर पर उसके 70 कराड़ उपयोगकर्ता प्रभावित हुए हैं लेकिन कंपनी ने इससे इनकार किया है। कंपनी का कहना है कि किसी भी उपयोगकर्ता के निजी डेटा का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।ऑनलाइन

नाम में परिवर्तन

(५१७४ - महाराष्ट्र) **साइन - हवलदार शिंदे सुमाप महादे** यी- जस्त्रिनयाजी



महाप्रबंधक (संविदा)

गोपनीयता एवं सुरक्षा संबंधी खबरों पर केंद्रित ऑनलाइन पोर्टल

GUJARAT SIDHEE CEMENT LIMITED

ईमेल, परा नाम, फोन नंबर, घर

का पता, जियोलोकेशन रिकॉर्ड, लिंक्डउन पर यूजरनेम एवं

प्रोफाइल यूआरएल आदि जानकारियां शामिल थीं।

लिंक्डइन ने मंगलवार को अपनी वेबसाइट पर एक पोस्ट में कहा,

भी पोस्ट किया था जिसमें 10 'हमारी टीम ने उस कथित लाख लिंक्डइन उपयोगकर्ताओं के लिंक्डइन डेटा सेट की जांच की है

(CIN: L26940G11973PLC002245)

Regd. Office: At "Sidheegram", PO Prashnavada BD Via Sutrapada 50 - 362275, Off Veravel-Kodinar Highway, nath (Gujarat). Phone: 0/2876-268200 Fax: 0/2876-285650 Emalls: Cdo@mehtagroup.com Website: www.mehtagroup.

Standalone Consolidated										
Post of the second	Quarter ended		Year ended		Quarter ended			Year ended		
Particulars	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020	31.03.2021	31.03.202
	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited
	₹in Lakhs	₹in Lakhs	₹in Lakhs	₹in Lakhs	₹in Lakhs	₹in Lakhs	₹in Lakhs	₹in Lakhs	₹in Lakhs	₹in Lakl
Total Income from Operations	19,571.45	15,656.43	16,681.50	57,298.00	58,988.36	19,712.35	15,657.63	16,819.83	57,445.10	59,230.
Net Profit / (Loss) for the period before tax	3,128.14	13.19	2,311.35	4,715.32	6,488.51	3,268.64	15.54	2,451.00	4,866.00	6,737.
Net Profit / (Loss) for the period after tax	1,961.99	(13.91)	1,490.32	2,929.00	4,241.25	2,079.04	(11.98)	1,627.93	3,054.50	4,483.
Total Comprehensive Income after tax	1,956.82	(44.90)	1,485.18	2,905.67	4,207.88	1,875.82	3,296.45	284.29	7,845.67	1,794.
Equity Share Capital	8,825.49	8,825.49	8,747.84	8,825.49	8,747.84	8,825.49	8,825.49	8,747.84	8,825.49	8,747.
Other Equity				35,534.74	32,622.33				36,667.94	28,815.
Basic Earnings per Share of ₹ 10 each (not annualised) - In ₹	2.22	(0.02)	1.70	3.32	4.86	2.36	(0.01)	1.86	3.47	5.
Diluted Earnings per Share of ₹ 10 each (not annualised) - In ₹	2.20	(0.02)	1.70	3.29	4.85	2.33	(0.01)	1.86	3.43	5.

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEB (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchanges website workshooting.com and companyation, com and companyation, excell segularizations, which segularizations when the segulation of the SEB companyation of the SEB

करोड़ लिंक्डइन उपयोगकर्ताओं के डेटा को बिक्री के लिए विज्ञापित किया था ।उस फोरम के उपयोगकर्ता ने डेटा का एक नमूना

By the Order of the Board, For Gujarat Sidhee Cement Lin Sd/-(M.S.Gilotra)

गणु ऊर्जा विभाग Department of Atomic Energy भंडार निदेशालय Directorate of Purchase & Stor

निविदा सूचना / Tender Notice

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से क्रय एवं भंकर निदेशालय, एस्पाणु जर्जा विभाग, मुंबई निदेशक, क्रय एवं मंडार निम्नलिखित मंडार सामग्री की आपूर्ति के लिए सीलबंद निविदाएं आमंत्रित कर हैं। पूर्ण निविदा दस्तावेज और विनिर्देशन यदि कोई हैं वेबसाइट www.dpsdae.gov.in पर देखा ए

For and on behalf of the President of India, The Director, Purchase & Stores Directorate of Purchase & stores, Department of Ahonic Energy, Mumbai invite SEALED TENDERS for supply of stores given below. Complete tender document and specifications if any, can be viewed and downloaded from websit www.dbsdage.org/ in

www.upsuae.gov.iii	
निविदा संख्या / TENDER NO	: DPS/CPU/04/A3/2744-TPT
निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय Last date and time of submission of tender	: 02/08/2021 upto 14.30 hrs
निविदा खोलने की तिथि एवं समय Date and time of Opening of tender	: 03/08/2021 on 11.30 hrs
: बेटा सेंटर	इंप्रजस्टक्चर एक्यपमेंट

संक्षिम विवरण / Brief Description Data Centre Infrastructure Equipment : Conference Room, Training School Hoste First Fir, Anushakti Nagar, Mumbai-40009 Pre-Bid meeting date & time : 06/07/2021 at 11.00 a.m

https://meet.google.com/mym-aqmj-dbg प्रथक क्रय अधिकारी (निविदा), क्रय एवं भंडर निदेशालय, एत्याणु कर्जा विभाग, विक्रम सारागई पर्या हुर्गितनगर, मुंबई - 400 094 को लिफाफे में भेजना होगा ताकि निविदा प्रस्तुत करने की अंति थ एवं समय से पहले इस निदेशालय में पहुँच जाएं । लिफाफे के कपर निविदा संख्या, अंति ाथि लिखा होना चाहिए।

Intel treat gird 11(g).

Your quotalion can be sent in an envelope super scribing lender number, due date to Assistant Purchase of Stores, Vikran Assistant Purchase of Stores, Vikran Assarbala Bhavan, Anubatkh loagar, Mumbal 400094. In a sealed envelope super scribing boldly. Tender Number and Due date so as to reach Before the last date and time of submission of tenders. संदर्भ / Ref : DPS/CPU/09/D1/1279/19-20/239

(vip)

VIP CLOTHING LIMITED

Road No. 22, M.I.D.C., Andheri (East), Mumbai - 400 093. Website: www.vipclothing.in urg.com; Tel: 91-2825 7624, 2825 7627 Fax: 91-22-2837 1023; CIN: L18101MH1991PLC05980

EXTRACT OF THE AUDITED (STANDALONE) FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & FINANCIAL YEAR ENDED MARCH 31, 2021


_						(< in Lakins	
			Quarter Ended	4	Year Ended		
Sr. No.	Particulars	Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited	
		31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020	
1	Total Income from Operations (Net)	4,256.85	4,178.50	3,105.84	14,511.84	17,553.62	
2	Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax	(22.04)	460.72	(1,299.08)	(102.23)	(1,505.74)	
3	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	(22.04)	460.72	(1,299.08)	(102.23)	(1,505.74)	
4	Equity Share Capital	1,651.93	1,651.93	1,651.93	1,651.93	1,651.93	
5	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	11,853.29	11,927.33	12,007.50	11,853.29	12,007.50	
6	Earnings Per Share (before extraordinary items) (Face Value of ₹ 2/- each)						
	a) Basic : b) Diluted:	(0.02) (0.02)	0.55 0.55	(1.58) (1.58)	(0.13) (0.13)	(1.81) (1.81)	
7	Earnings Per Share (after extraordinary items) (Face Value of ₹ 2/- each)			I			
	a) Basic : b) Diluted :	(0.02) (0.02)	0.55 0.55	(1.58) (1.58)	(0.13) (0.13)	(1.81) (1.81)	

1) The above is an extract of the detailed format of the Financial Results for the quarter and financial year ended March 31, 2021 filled with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of the Standalone Audited Financial Results for the quarter and financial year ended March 31, 2021 is available on the Stock Exchange websites. (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and also on the Website of the Company at www.vipclothing.in. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held or June 30, 2021.

Chairman & Managing Director

E 20 70

यारांश



श्रीगुरु डॉ. बालाजी तांबे यांच्या महस्रचंद्रदर्शनानिधित त्यांचे व्यक्तिमत्व, त्यांचे कार्य; तसेच त्यामागील प्रेरणा आणि विचार यांची ओळख करून देणारा लेख.

- संतुलन परिवार

धर्मस्य दुर्लस्य क्राता सम्ययक वकता कर्ताउपि का । स्रोता तारोऽपि अस्तावान कर्ता कंउस्पि ततः सुभीः ॥ भर्म एकत्र के काप्, हे जाकवारों व्यक्तों पुर्वकः हो कं अस्तानके काप् के कापार्थ्य कर्ता व्यक्ति पुर्वकः हो कं अस्तानके कर्ता कर्ता क्षात्रिका पुर्वकः हो कर्ता अस्तानके अस्ता कर्ता कर्ता पुर्वद्रियान तर्प असिन्द्रमें अस्ता कर्ता कर्ता पुर्वद्रियान तर्पात्रका व्यक्तिक अस्तिः चार वस्ता अपुर्वेदावा कर्ताल्य व्यक्तिक अस्तिः चार वस्ता अपुर्वेदावा इस्तिकारित तर्कात आहे. प्रवास्त्रका अस्ताम् विविक्तस्य व संशोधक वृत्तं, सान्यो कर्त्वाचानो अस्ता पापुर्वे गायोग आस्त्रवेदावा है स्वस्ता अस्तिक्ष सान्यों बीनस्रतिवीत्ता विवास आहे. हे हो तर्वि (व्यान स्वान) अस्तिक विवास होत्या विवास स्वस्ता

पानां वीकरतेलां विचार आहे, है हो गाँव (रावा)
प्राप्ते आँतुरुली अंते (हाणता) पानी पूर्वीच जावते.
इतिमेश्रारंगा जवस्वाय काताता है तीन विचारमा शर्माता विचारमा अंतिये देता. वार्माते अध्यापमाठ्ठे आतंत्रता संस्थायत होता. बोहुएकोरी सरकामत प्रेचाना प्रपोकारा प्रपासना प्रेम नि गानते दिल्ली.
असी त्यांची मानता नाती. है दहलताल, 'हेंक्स्पति पादनाकट्ट है कार्य करवुंच पोत्ते आहे. है जानधारी, प्रोची स्थान करवेंचे पोत्ते आहे. हो स्थापित, प्रोची स्थापित करवेंचे आहे. एकस्पति होता प्रचारमानि करवेंचे आहे. एकस्पति होता आहे. पुत्रपोक्तान संस्थार आहे. हिंदीण प्रयुक्ति आहे.

मेहनत घेडन उड़णारी मोटार किस्सित

केली आहे. अलोकडेच या फ्लाइंग

करा अह. अश्वकद्व या स्ट्यान करान्त्री दश्यों नावार्यों क्रत्यात आसी. या चारणीररप्या केवळ दोत मिनिदताच मोदापित विमानाने स्थ पारण करताना विमून आले. स्टोब्हाविस्माच्या निवा आणि व्यक्तिसम्टम्हा या दोत ऑशरप्रद्वीय

उपलब्ध साध्यांनियाँ जीव ओतून ही कामे त्यांनी केली. गुंतवलेल पेसे पात वेतील की नाती, पाची हमी नक्ती, क्व ते पागे हटले नाहित.

दर्जाशी तडजोड नाही

त्यांची आनुतिहरू औषभांची आधुनिक फैक्टरी आहे. संतुतन हा विकासनीय देवेदन व गुक्करी औषणीचा ब्रेड त्यांनी देव-विदेशात नेतर. शासात सांगितलेल्या वस्तुंच्या प्रमाणन आणि दर्जात तहसीड केटरी नाही, मण ते अस्सल सोने असो की जातिकत केशर! यज्यतरी उत्तय प्रतिषे अच्छे निवासने नार्कतः, राज्युः त्यांनी व्यवस्थातस्य करण्यतः यं तं रंगतः, त्यांनी व्यवस्थायस्य मानवार्ध्व वर्ष्णि करण्यतः यं तं रंगतः, वर्षाःच्या प्रत्याच्या प्रतिष्ठ वर्षाःच्या प्रत्याच्या प्रतिष्ठ प्रत्याच्या प्रतिष्ठ प्रत्याच्या प्रतिष्ठ प्रत्याच्या प्रतिष्ठ प्रत्याच्या प्रतिष्ठ प्रत्याच्या प्रतिष्ठ प्रत्या स्वत्याच्या वर्ष्णियः प्रतिष्ठ प्रत्याच्या प्रतिष्ठ प्रत्याच्या प्रतिष्ठ प्रत्याच्या प्रतिष्ठ प्रत्याच्या प्रतिष्ठ प्रत्याच्या प्रतिष्ठ प्रतिष्य प्रतिष्ठ प्रतिष प्रतीचे आक्रेप्रे निकाले नाहीत, पहनून त्यांनी च्यवनप्राताचे

त्यांचे वार काल्य काराद्यारों आहे. त्यांचे अंकरण्य प्रणांचे आहेत की तुर्व कारणास्त्राज्ञ (जीतार्वका जारू- बाम क्यांचे त्यारों आपूर्विक तंयारों आहेत विकासकों हे परवान में बां करतात. युद्धकारणं त्यांची केवरणास्त्रा ही प्यांचीय साथ, आहुन्य कारणास्त्राच्या अहात परवान, हा प्याम प्यांचा आहुन्येका पाराच्या जेवांचा प्रधान त्या आहे. त्यांच्या आहुन्येका पाराच्या जीवार पंचा-त्या आहे. त्यांच्या कार्युक्ता प्राचा क्रिक्टरील को के प्रणांच कार करते. ज्यांचीत प्रशामी तीर खुल्या हित्सों तेर येक त्यांची. आहोती हा आहात्या प्रशाम करते कार्य कारणी त्यांच्या क्रेकरी पाराचाच्या हा ती हित्याच्या-आह स्यांच्या क्रेकरी पाराचाच्या आहे. आहेत्या हात्य लोकारी केवरी क्यांच्याची आहेता बात्य कारणा आहे.

महस्रचंदांचे प्रेम

संगीत त्यांना प्रामप्रिय आहे. ते मजन, स्तीप, मंत्र गातात, ते ८१ वर्षाचे होत आहेत. त्यांच्यात भव गातात. त ८१ वचच हात अहत. त्याच्या कारोजार पावस्वतात्रे पेर भागात्रके आहे. कारोजार पावस्वतात्रे पेर भागात्रके आहे. कारोजारके अस्ति भागात्रके आहे. गात्रेक्टलेक्स, भागात्र संस्कृतीयत्रे पेर गीविकाट अती पर्यटाकार आगात्रे रेस. अगादे गीविकाट अती पर्यटाकार आगात्रे रेस. कारोज खाने, भागात्रे भागात्रकार सामात्रकार सामात्रकार कारोज खाने, भागात्रकार सामात्रकार सामात्रकार करी जगाये, है त्यांच्याकडून शिकाये.

सम्प्राप्त्य संगणवानीही जानी हरांदि आहे. त्यामुळे हे सर्व विकारांत जनकर्षे नाटातात. त्यांत अध्यात जनकर्षेत्र संगणवाना प्राप्त प्राप्ति भागता. या प्रकामा स्वाप्तकर्य गांतांत क्षा नाक्ष्येय होते. पण अंगुल्योत अध्यात क्षा क्ष्येय नाक्ष्येय होते. पण अंगुल्योत क्ष्येय क्षा क्ष्यात प्रकाम प्राप्त अध्यात त्यांत्र क्ष्येय जनक्ष्य क्ष्येय अध्यात त्यांत्र अध्यात त्यांत्र अध्यात व्याप्त प्राप्ता प्राप्ता क्ष्यात्र आध्यात व्याप्ता प्राप्ता प्राप्ता क्ष्यात्र आध्यात व्याप्ता प्राप्ता अध्यात्र व्याप्ता व्याप्ता प्राप्ता अध्यात्र व्याप्ता व्याप्ता प्राप्ता अध्यात्र व्याप्ता व्याप्त रॉक्टबा ब्रान्थार्था एकाम्य इति आहे. त्यांच्या विशास विशिक्ष इनुदेशाः स्थाविष्ट झार्टन्याः प्रश्चेत्वः आयुक्त इति इति वर्षाचे भागतं ज्ञानतंत्रास्त्रं पर स्ट्रीः ता वर्षायः स्रीत्यः पूर्व कार्यक्रातेत्रास्त्रं पर स्ट्रीः ता वर्षायः स्रीत्यः पूर्व कार्यक्रातेत्रास्त्रं पर स्ट्राप्तः वर्षायः देशाः ता प्राचानवर्षे पर्यः आहे. गर्वारं हे साध्यः तर अध्याणः हे वर्षायः प्रश्चाने अदेष्या आहे. इति स्ट्राप्तः वर्षायः प्रश्चाने वर्षायः अस्ता ज्ञा अप्यत्यक्ताः, त्याव्य वृत्तपुष्ट्रां विकार्णः, असर्गः स्ट्राप्तान्यो पंकरण्या उप्पारती, विवादात्र्यायाः त्यांचे प्रस्तिदेशतः तर संप्ताः प्रशाने आपूरिकः कार्यक्रातः नवा सनत्यार प्रवादमा हर्याः

(वॉ. बीगुरु बालाजी संबं प्रांचे 'संतुष्ट्य पूगे युगे' हे आत्पचरित्र लवकरच 'सकाळ प्रकाशना तर्फे प्रकाशित करण्यात पंत आहे.)

'कोव्होवॅक्स'ची क्लिनिकल ट्रायल

परळमधील केईएम रुग्णालयात ३२ नागरिकांची नोंदणी

भाग्यक्री मृतहः सकाळ वृत्तसेवा

पुंबई, ३०: पुंबईत बीच्या कोरोना प्रतिबंधक रहारीची चाचनी सुरू इसती आहे, परदेशात 'चोन्होंन्स्ट्रेंबच' प्टबून् परिवेश कारहेल्या 'कोन्होंब्स्टब्स रहारीची केडीएम रम्बालयात १८

वर्षकरात गांगीरकायर चांचवी वेली जात आहे. गैल्या वर्षों मुंबईत कोविद्रशिल्ड, बंग्युडिस्टर व या वर्षी पुंजुबर्गात मुंबईत लंबीची ट्रायत केली हेती. मुंबईत लंबीची मोठ्या प्रभावात

९३ टक्के प्रभावी

९३ टक्कंड प्रमाशी वेदीपण कामान्यत्र मिकालेल्या माहितीनुकार, वेदीपण कण्यात्त्रवात सुधारे ७० ते ८० वर्णाची याच्या येथ्यात येथार अहे, याच्या दरम्यात १८ तर्यात्रीत व्यक्तिस त्रे वोद्यक्ति स्वात्र त्रिक्ता व्यक्तिस त्रे हा सित्ते इति हित्ते वालीत या तर्याच्या दस्ता इंस २२ दिवसार्ततर दिला अहंत्य वास्त्री ३२ लोकाच्या विषड हात्रात्र अहे, तरदेशाएं प्रमाण आलेल्या याच्य्याती तस १३ टक्कंड प्रमाणी असल्याचे दिसून आले अहे.

व सीरम इनिस्टब्यूट ऑफ इंडियाने माहितो केईएम रूपालवाने ऑ विकसित केसेल्या कोलोवीनम डॉ. सिन देशमुख यांनी देली.

कोविशिक्त व क्षांवर्शिक्ता देग्यात येतः असीची वावच्योतं देत्रच्या युक्त अत्रहे, ता स्मृद्धिक तम एव ते देशः आहे. आरम्बीएभआरे ने देश्यातः व्यासपी केटाविर देग्यातः आती आहे. चालकादेश्या या चारणीत केद्रंप्य पाच केद्री आर्थिकच्या नोवदर्शिक्तः आर्थात्वाचार्थित व्यास्त्राच्यात्वाचार्थित व्यास्त्राच्यात्वाच्यात्यात्यायात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्वाच्यात्यात्वाच्यात्यात्वाच

शक्तिमान 'सीपीसी'च्या शताब्दीसाठी चीन सज्ज



स्थापनेला उधा (ता. १) शंभर वर्षे पूर्व होत आहेत, जपान्यांनी आक्रमण केलेस्या, गर्मको ६ पूर्व हात आहत. वर्णान्यान आक्रमन केलेल्या, गरीबीत पिचलेल्या व अनेक अध्यक्षांना सामीरे गेलेल्या चीन्ला या पचाने आक्र महाराक्तीच्या पातळीकर आक्रते आहे. त्यापुळे शंभर वर्षे पूर्व होत असल्पानियत भव्य कार्यक्रम आयोजित बरण्यात आले आहेत.

मोटार आता आकाशात उडणार निजा (स्तोनसाकित्या), ता, ३० (पॉटीआप): स्ट्यावकन मुस्स्य भावनारी मोटार आकारका उडण्याची करणना केवळ मोडली जार होती किया कार्डून मार्थिकन्तुन पावनके जार होती, परंतु स्ट्योनसाकियाच्या करेवून प्रदेशन कंपनीने एक्याल होन दशके प्रदेशन कंपनीने एक्याल होन होन्स उड़णारी मोटार १०० केटी देगाने ८२०० फूट उंपीवरून धावू शकते. - अन्टीन झाजेंक, सह संस्थापक

पलाइंग कारवे मितारत मार्वितरत्व सरलागार कपनी मॉर्मन स्टॅनकेच्या मते, हे क्षेत्र २०५० पर्यंत १.५ ट्रिकेचन झेकरपर्यंत पोचेल,

दोन दशक्ष दुरो द्वाचे प्लाईग कारो मोठेन देन वर्षात सारा सारे अपि लाचा सर्च हारे सारा स्वाप सर्च हारे सारा स्वाप सर्च हारे सारा स्वाप सर्च हारे

किमानतळारमध्यम २८ जून रोजो ए.आ हो मोटार जमीन आणि हनेत रोजो कारणी ३५ विनिदांची वस्त्रसरी वाजणी दिखाणी आसी, बरेक्ट्रन कंपनीने निर्मेत मोटार विचानाचे २४ पारण करते.

आंतरराष्ट्रीय विमाने ३१ जुलैपर्यंत बंदच

नवी दिस्सी, ता.३० : कोरीनामुळे नकी दिस्ती, ता. ३० : केमेरनामुळं अतराहार्ट्रीय प्राथमी विधानावरीज्ञ कंटी २१ दुर्वेश्वयीत प्राविधानाव आत्रात अत्रे, पूर्वविधानित प्राविधाना अत्रिक्ता आणि निकड पानुष्मा पर्वाधानी देक राकते, असे हत्त्वते बाह्यूक पर्वाधानातात्वाच्या च्या कंटी आहे, तो केमे राव्या अत्रेत, ये २०३० पानुत्र वर्ष यादा महिल्ले आहेते, वर्षेत्र किल्ले क्षेत्रीय क्षाण्या आरो, स्वर्णाव प्राव्धानाव आरो, ये २०३० पानुत्र वर्षेत्र यादा महिल्ले आहेते, अस्त्रीत्व विधाने महिल्ला आहेते, अस्त्रीत्व विधाने महिल्ला आहेते, अस्त्रीत्व क्षाण्ये महिल्ला आहेते, अस्त्रीत्व क्षाण्ये आहेते, अमेरिका, इंग्लंडसह २४ देशांबरोबर 🕂



Fermenta Rintech Limited

[FORMERLY KNOWN AS DIL LIMITED]

Regd. Office: A-1501, Thane One, DIL Complex, Ghodbunder Road, Majiwada, Thane (West) 400 610, Maharashtra, India.

EXTRACT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2021

				Lucy at many exhalts has a round many			
Particulars	Quarter Ended 31.03.2021 (Unaudited)	Quarter Ended 31.12.2020 (Unaudited)	Quarter Ended 31.03.2020 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2021 (Audited)	Year Ended 31.03.2020 (Audited)		
Total income from operations (net)	10,411.90	9,067.50	6,717.88	38,553.93	30,527.22		
Profit before tax	338.04	1,396.48	411.64	5,163.06	4,342.01		
Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax	739.56	979.75	313.65	4,550.68	5,952.60		
Equity Share Capital	1,442.37	1,442.37	1,442.37	1,442.37	1,442.37		
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	29,501.17 (As on 31 / 03 / 2020)	29,501.17 (As on 31 / 03 / 2020)	24,596.14 (As on 31/03/2019)	29,501.17 (As on 31 / 03 / 2020)	24,596.14 (As on 31 / 03 / 2019)		
Earnings per share (EPS) (before Extraordinary items) (of Rs. 5/- each)							
-Basic (Rs.)	2.56	3.40	1.09	15.77	20.63		
-Diuted (Rs.)	2.56	3.39	1.09	15.69	20.53		
Earnings per share (EPS) (after Extraordinary items) (of Rs. 5/- each)							
-Basic (Rs.)	2.58	3.40	1.09	15.77	20.63		
-Diluted (Rs.)	2.56	3.39	1.09	15.69	20.53		

The National Company Law Tribunal, Bench at Muribal, had approved the Scheme of Amaigamation ("Scheme") between Transferre company i.e. Dit. Limited (Dit.) and the Transferre company i.e. Ferments Bottech Limited (FBL) and their respect shareholders. The Scheme had become effective from September 28, 2019 The appointed side of the Scheme is April 1, 2018. shareholders. The occent is also decome security from depending 22, 2019. The appointed uses of the occent is a high 1, 2017. The name of the manignamated company has been changed from DLL limited to Ferminat Bildech Limited wide Certific of Incorporation issued by the Registrard Companies, Mumbal dated 17th October, 2019.

The Board of Directors at their meeting held on 29th June, 2021 have proposed a dividend of 50% (Rs. 2.50 per share) for the first year ended 2020-2021. This payment of dividend is subject to approval of shareholders in the ensuing Annual Ceneral Mee

STANDALONE FINANCIAL SUMMARY (R									
Particulars	Quarter Ended 31.03.2021 (Unaudited)	Quarter Ended 31.12.2020 (Unaudited)	Quarter Ended 31.03.2020 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2021 (Audited)	Year Ended 31.03.2020 (Audited)				
Total income from operations (net)	9,464.68	8,833.04	7,474.11	37,943.96	31,281.97				
Profit before tax	1,084.19	1,517.88	820.20	6,322.90	4,754.66				
Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax	966.57	1,105.09	720.80	5,196.85	6,367.04				
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	966.57	1,105.09	720,80	5,196.85	6,367.04				

he above is an extract of the detailed formal of quarter and year ender Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Reserver and year ended Financial Results are available on the Stoc ults filed with the Stock I dions, 2015. The full for

Prashent Nagre Managing Director DIN No: 09165447

E-TEMDER NOTICE

SOLAPUR CITY DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

E-TENDER NOTICE NO : 15

Solapur City Development Corporation Limited (SCOCL) is invite e-tender from eligible bidders through e-inderring portal for Appointment of Contractor for Construction of 0.38 ML Capacity recirculation RCC Well and providing installation of submersible sludge pump and submersible devaletring pumping machinery giving satisfactory test trial at Bhavani Peth, Water Treatment Plant, in Solapur under Smart City Missions.

Name of Work	Estimated Cost	EMD Amount	Initial Security Deposit		Cost of Blank Tender Form
Appointment of Contractor for Construction of 0.38 ML Capacity recirculation RCC Well and providing installation of submersible sludge pump and submersible dewatering pumping machinery giving satisfactory test trial at Bhavarin Peth, Water Treatment Plant, in Solorur under Smart CPM Mission	Rs. 95,04,355/- (Rupees - Ninety Five Lakh Four Thousand Three Hundred Fifty Five Only)	Rs. 95,043/-	Rs.1,90,090/-	09 Month	Rs. 1180/- (Rupees One Thousand One Hundred Eighty Only including 18% GST)

- Tender release date is 10:00 am on 30/06/2021.
- Bid Submission date up 03.00 PM of 07/07/2021
- •The Technical Bid Opening date is 04.00 PM of 08/07/2021.
- The tender can be downloaded from www.mahatenders.gov.in
- The bidders should quote exclusive of GST.
- · All rights of acceptance and rejection of tender is reserved by SCOCL Tender ID: 2021 SMC 700154 1

SD/- Chief Executive Officer Selapur City Development Corporation Limited

(vtp)

VIP CLOTHING LIMITED

EXTRACT OF THE AUDITED (STANDALONE) FINANCIAL RESULTS FOR

Sr. No.		Quarter Ended			Year Ended	
	Particulars	Audited 31.03.2021	Unaudited 31.12.2920	Audited 31.03.2020	Audited 31.03.2021	Audited 31.03.2020
1	Total Income from Operations (Net)	4,250.85	4,178.50	3,105.84	14,511,84	17,553.62
2	Not Profit / (Loss) from ordinary activities after lax	(22.04)	460.72	(1,299.00)	(102.23)	(1,505.74)
3	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	(22.04)	460.72	(1,299.00)	(102.23)	(1,505.74)
4	Equity Share Capital	1,651.93	1,651.93	1,651.93	1,651.93	1,651.93
5	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	11,853.29	11,927.33	12,007.50	11,853.29	12,007.50
6	Earnings Per Share (before extraordinary items) (Face Value of ₹ 2/- each) a) Basic ; b) Diluted:	(0.02) (0.02)	0.55 0.55	(1.58) (1.58)	(0.13) (0.13)	(1.81)
7	Earnings Per Share (after extraordinary items) (Face Value of ₹ 2/- each) a) Basic :	(0.02)	0.55	(1.58)	(0.13)	(1,81)
ш	b) Diluted :	(0.02)	0.55	(1.58)	(0.13)	(1.81)

00

KK